


शनिवार, 26 अप्रैल 2025
Saturday, 26 April 2025

प्रेस विज्ञप्ति – मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों के दौरान वर्षा/ वज्रपात/ ओलावृष्टि की गतिविधियाँ
Press Release : Rainfall/Thunderstorm/Hailstorm Activities in Madhya Pradesh during next 4 days

जारी करने का समय – 13:00 भा.मा.स.
Time of Issue: 13:00 IST

वर्षा के प्रमुख आँकड़े (मिमी में) – हरदा 0.8, सिवनी मालवा 0.2, सोहागपुर-नर्मदापुरम 0.1



- ❖ पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभमंडलीय पछुआ पवनो में एक ट्रफ़ के रूप में जिसकी धुरी माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी ऊंचाई पर है, 76° पूर्वी देशांतर से 32° उत्तरी अक्षांश के उत्तर में अवस्थित है।
- ❖ एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है।
- ❖ उत्तर-दक्षिणी ट्रफ़ तेलंगाना से मन्नार की खाड़ी तक रायलसीमा और तमिलनाडु से होकर माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर विस्तृत है।

- The **Western Disturbance** as a trough in middle tropospheric westerlies with its axis at 5.8 km above mean sea level roughly along Long. 76°E to the north of Lat. 32°N persists.
- The **cyclonic circulation** over southwest Rajasthan and adjoining central parts of Pakistan now lies over southwest Rajasthan & neighbourhood and extends upto 1.5 km above mean sea level.
- The north-south **trough** from southern parts of Madhya Maharashtra to Gulf of Mannar now runs from Telangana to Gulf of Mannar across Rayalaseema and Tamil Nadu at 0.9 km above mean sea level.

मौसम का पूर्वानुमान (Weather Forecast & Warnings) दिनांक 26.04.2025 की प्रातः 8:30 से 27.04.2025 की प्रातः 8:30 तक वैध

चेतावनी (Warning)	स्थानिक वितरण	जिले
लू	कहीं कहीं	मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में।
वज्रपात / झंझावात	कहीं कहीं	रायसेन जिले में।
वज्रपात / झंझावात / झोकेदार हवाएं (40-50 किमी/घंटा)	कहीं कहीं	नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरोली, सीधी, रीवा, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, पांडुर्णा, जिलों में।

मौसम का पूर्वानुमान (Weather Forecast & Warnings) दिनांक 27.04.2025 की प्रातः 8:30 से 28.04.2025 की प्रातः 8:30 तक वैध

चेतावनी (Warning)	स्थानिक वितरण	जिले
वज्रपात / झंझावात / झोकेदार हवाएं (50-60 किमी/घंटा) / ओलावृष्टि	कहीं कहीं	नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांडुर्णा जिलों में।
वज्रपात / झंझावात / झोकेदार हवाएं (40-50 किमी/घंटा)	कहीं कहीं	नर्मदापुरम, बैतूल, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, मंडला जिलों में।
लू	कहीं कहीं	मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी जिलों में।

मौसम का पूर्वानुमान (Weather Forecast & Warnings) दिनांक 28.04.2025 की प्रातः 8:30 से 29.04.2025 की प्रातः 8:30 तक वैध

चेतावनी (Warning)	स्थानिक वितरण	जिले
वज्रपात / झंझावात / झोकेदार हवाएं (50-60 किमी/घंटा) / ओलावृष्टि	कहीं कहीं	छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांडुर्णा जिलों में।
वज्रपात / झंझावात / झोकेदार हवाएं (40-50 किमी/घंटा)	कहीं कहीं	नर्मदापुरम, बैतूल, सिंगरोली, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, पन्ना, दमोह जिलों में।
लू	कहीं कहीं	मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां जिलों में।
वज्रपात / झंझावात	कहीं कहीं	विदिशा जिले में।

मौसम का पूर्वानुमान (Weather Forecast & Warnings) दिनांक 29.04.2025 की प्रातः 8:30 से 30.04.2025 की प्रातः 8:30 तक वैध


चेतावनी (Warning)	स्थानिक वितरण	जिले
वज्रपात / झंझावात / झोकेदार हवाएं (40-50 किमी/घंटा)	कहीं कहीं	सिंगरोली, सीधी जिलों में।
लू	कहीं कहीं	मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां जिलों में।

मौसम का पूर्वानुमान (Weather Forecast & Warnings) दिनांक 30.04.2025 की प्रातः 8:30 से 01.05.2025 की प्रातः 8:30 तक वैध

चेतावनी (Warning)	स्थानिक वितरण	जिले
वज्रपात / झंझावात / झोकेदार हवाएं (40-50 किमी/घंटा)	कहीं कहीं	सिंगरोली, सीधी जिलों में।
लू	कहीं कहीं	मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां जिलों में।

Weather Forecast And Warnings from 26 April 2025 to 30 April 2025

26 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 के मध्य मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनियां



सुझाये गए कार्य -

- प्रचुर मात्रा में पानी पीकर हाइड्रेटेड रहें और मध्याह्न 12 बजे से 4 बजे तक प्रत्यक्ष सूर्यप्रकाश से बचें।
- गर्मी के संपर्क से बचें, हल्के वजन के, हल्के रंग के, ढीले सूती कपड़े पहनें, अपने सिर को ढकें, कपड़े, टोपी या छाता का उपयोग करें।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और स्थानीय अधिकारियों जैसे आधिकारिक स्रोतों से मौसम के पूर्वानुमान और अलर्ट पर नज़र रखें।
- आपातकालीन किट में आवश्यक वस्तुएं जैसे कि जल्दी खराब न होने वाला भोजन, पानी, दवाइयां, टॉर्च, बैटरी और प्राथमिक चिकित्सा किट रखें।
- परिवहन व्यवस्था सहित निकासी के तरीके के बारे में पहले से योजना बना लें।
- घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद करें और यदि संभव हो तो यात्रा से बचें।
- सुरक्षित आश्रय लें; पेड़ों के नीचे शरण न लें तथा तूफ़ान के दौरान जल निकायों से तुरंत बाहर निकलें।
- कंक्रीट के फर्श पर न लेटें और कंक्रीट की दीवारों का सहारा न लें।
- इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें एवं उन सभी वस्तुओं से दूर रहें जो बिजली का संचालन करती हैं।
- जानवरों को खुले पानी, तालाब या नदी से दूर रखें। रात के समय पशु को खुले स्थान पर न रखें।
- पशुओं का विशेष ध्यान रखें, पशुओं को विशेष संरक्षित एवं सुरक्षित पशु शेड में रखें। सभी जानवरों को रात के दौरान विशेष रूप से संरक्षित और सुरक्षित पशु शेड में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, दोपहर के समय खेत के जानवरों को खुली चराई की अनुमति न दें।

कृषकों के लिए विशेष सलाह -

- ❖ वाष्पीकरण को कम करने के लिए सूखी घास, पत्तियाँ या फसल अवशेषों का उपयोग करमल्विंग (Mulching) करें।
- ❖ नमी के लिए प्रतिस्पर्धा को कम करने हेतु हल्कीनिराई-गुड़ाई जैसे अंतरवर्ती क्रियाकलाप करें।
- ❖ फसलों की नियमित निगरानी करें और आवश्यकता अनुसार जैविक या अनुशंसित रासायनिक नियंत्रण उपाय अपनाएँ।
- ❖ कटाई के बाद उत्पाद को ठंडी, छायादार और हवादार जगह में संग्रहित करें।
- ❖ पशु आश्रयों में छाया (वृक्ष, छप्पर आदि), स्वच्छ ठंडा पीने का पानी और उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करें।
- ❖ फसलों/सब्जियों की आवश्यकतानुसार बार-बार सिंचाई करें।
- ❖ खेतों में पत्तियों का मुरझाना, सिकुड़ना या फल गिरना जैसी गर्मी कीमार (हीट स्ट्रेस) के लक्षणों की निगरानी करें। आम, अमरूद तथा अन्य फलों के लिए फल झड़ने से रोकने हेतु जाल या सहारा का उपयोग करें।

Action Suggested -

- Stay hydrated by drinking plenty of water and avoiding direct sun exposure during peak hours (12 PM to 4 PM).
- Avoid heat exposure, Wear light weight, light coloured, loose, cotton clothes, Cover your head, Use a cloth, hat or umbrella.
- Keep an eye on weather forecasts and alerts from official sources like India Meteorological Department (IMD) and local authorities.
- Keep essential items in an emergency kit such as non-perishable food, water, medicines, flashlight, batteries and first aid kit.
- Plan in advance about the mode of evacuation including transport arrangements.
- Stay indoors, close windows and doors and avoid travel if possible.
- Take safe shelter; do not take shelter under trees and move out of water bodies immediately during a storm.
- Do not lie on concrete floors and do not take support of concrete walls.
- Unplug electrical/electronic equipment and stay away from all objects that conduct electricity.
- Keep animals away from open water, ponds or rivers. Do not keep animals in open spaces at night.
- Take special care of animals, keep animals in specially protected and secure animal sheds. All animals should be kept in specially protected and secure animal sheds during the night. Also, do not allow open grazing of farm animals during afternoon.

Special advice for farmers -

- Apply mulching using dry grass, leaves, or crop residues to reduce evaporation.
- Intercultural operations like light weeding can reduce competition for moisture.
- Monitor crops regularly and use biological or recommended chemical controls as needed.
- Store harvested produce in cool, shaded, and ventilated areas.
- Ensure shade (trees, thatched sheds), provide clean, cool drinking water and ventilation in animal shelters.
- It is advised to irrigate the crops/vegetables frequently as per requirement.
- Monitor fields for heat stress symptoms like leaf curling, drooping, or fruit drop.
- For mango, guava, and other fruits: use nets or support to prevent fruit drop.